

[This question paper contains 2 printed pages.]

Your Roll No.....

Sr. No. of Question Paper : 7015

J

Unique Paper Code : 2272202401

Name of the Paper : Intermediate Macroeconomics I: Foundations of Aggregate Income Determination

Name of the Course : **BA (Prog.) in Economics**

Students : **SOL**

Semester : **IV**

Duration : 3 Hours

Maximum Marks : 90

Instructions for Candidates

1. Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.
2. Answer any **Five** Questions.
3. Answers may be written either in English or Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

छात्रों के लिए निर्देश

1. इस प्रश्न-पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए।
2. किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
3. इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।

1. Consider the following model for an economy :

$C = a + c YD$ Consumption function

$I = x - b r$ Investment function

$G = g$ Government expenditure (fixed)

T is the lump-sum tax

$L = kY - hr$ Demand for Money

$M_s = M/P$ Supply of Money (Real Balances)

Where YD = Disposable income, r = rate of interest. Now answer the following questions :

- (i) Determine the equation for aggregate demand
- (ii) Find out the factors responsible for change in the aggregate demand? Explain by using diagram. (10,8)

2. How is the permanent income hypothesis an improvement over the Keynesian theory of consumption? (18)
3. What do you mean by Wage-setting and Price-setting relations? How is the equilibrium rate of unemployment and wage rate determined in the labour market? (8,10)
4. Differentiate between short run Phillips curve and long run Phillips curve? Explain the impact of expansionary fiscal policy on inflation and unemployment? (12,6)

P.T.O.

5. What are the determinants of desired capital stock? Critically examine the neo-classical theory to explain a firm's effort to achieve the desired capital stock from its initial level of capital stock. (9,9)
6. Critically analyze the life-cycle theory of consumption. (18)
7. Write short notes on **any two** the following : (9,9)
 - (i) Aggregate Supply
 - (ii) Natural Rate of Unemployment
 - (iii) Life cycle hypothesis of consumption

1. किसी अर्थव्यवस्था के लिए निम्नलिखित मॉडल पर विचार कीजिए :

$$C = a + c YD \quad \text{.....उपभोग फलन}$$

$$I = x - b r \quad \text{.....निवेश फलन}$$

$$G = g \quad \text{.....सरकारी व्यय (निश्चित)}$$

$$T \text{ एकमुश्त कर है}$$

$$L = kY - hr \quad \text{.....धन की माँग}$$

$$M_s = M/P \quad \text{.....धन की आपूर्ति (वास्तविक शेष)}$$

जहाँ $YD =$ प्रयोज्य आय, $r =$ ब्याज दर। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

- (i) समग्र माँग के लिए समीकरण निर्धारित कीजिए

- (ii) समग्र माँग में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार कारकों का पता लगाइये? आरेख का उपयोग करके समझाइये। (10,8)

2. स्थायी आय परिकल्पना उपभोग के कीनेसियन सिद्धांत पर कैसे सुधार है? (18)
3. मजदूरी-निर्धारण और मूल्य-निर्धारण संबंधों से आपका क्या अभिप्राय है? श्रम बाजार में बेरोजगारी और मजदूरी दर की संतुलन दर कैसे निर्धारित की जाती है? (8,10)
4. अल्पावधि फिलिप्स वक्र और दीर्घावधि फिलिप्स वक्र के बीच अंतर बताइए? मुद्रास्फीति और बेरोजगारी पर विस्तारवादी राजकोषीय नीति के प्रभाव की व्याख्या कीजिए? (12,6)
5. वांछित पूंजी स्टॉक के निर्धारक क्या हैं? पूंजी स्टॉक के अपने प्रारंभिक स्तर से वांछित पूंजी स्टॉक प्राप्त करने के लिए एक फर्म के प्रयास को समझाने के लिए नव-शास्त्रीय सिद्धांत की समालोचनात्मक विवेचना कीजिए। (9,9)
6. उपभोग के जीवन-चक्र सिद्धांत का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (18)
7. निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए : (9,9)
 - (i) समग्र आपूर्ति
 - (ii) बेरोजगारी की प्राकृतिक दर
 - (iii) उपभोग की जीवन चक्र परिकल्पना